



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 05.07.2022

**1-थाना कासना पुलिस द्वारा लूट की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 कार्टन मोबाइल डिसप्ले-ट्रे बरामद।**

दिनांक 03.07.2022 को थाना कासना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-543/2021 धारा 395/412/120(बी) भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर में वांछित अभियुक्त नसरु उर्फ नसरुद्दीन पुत्र हमजुद्दीन निवासी रामपुर ठेरा, थाना शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर को थाना क्षेत्र के सिरसा गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर लूट की घटना से सम्बन्धित 02 कार्टन मोबाइल डिसप्ले-ट्रे बरामद की गई है। घटना को कारित करने वाले अभियुक्त के अन्य साथियों/सह-अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

**अभियुक्त का विवरण:**

नसरु उर्फ नसरुद्दीन पुत्र हमजुद्दीन निवासी रामपुर ठेरा, थाना शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर

**अभियोग का विवरण:**

मु0अ0सं0-543/2021 धारा 395/412/120(बी) भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर

**बरामदगी का विवरण:**

02 कार्टन मोबाइल डिसप्ले-ट्रे



## **2-थाना जारचा पुलिस द्वारा 01 वांछित लुटेरा/टॉप टेन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का कुण्डल पीली धातु व अवैध हथियार बरामद।**

दिनांक 04.07.2022 को थाना जारचा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 38/2022 धारा 394/506/411 भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर में वांछित अभियुक्त रिकू उर्फ लादी उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र स्व जगदीश गुर्जर निवासी गाँव रानौली लतीफपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के एनटीपीसी रोड रानौली लतीफपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 कान का कुण्डल पीली धातु संबंधित मु0अ0सं0 38/2022 धारा 394,506,411 भादवि0 व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं। उक्त अभियुक्त थाना जारचा का टॉप टेन का चिन्हित अपराधी है।

### **अभियुक्त का विवरण:**

रिकू उर्फ लादी उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र स्व जगदीश गुर्जर निवासी गाँव रानौली लतीफपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

### **पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:**

- 1-मु0अ0सं0 234/16 धारा 223, 224, 225 भा.द.वि. थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
- 2-मु0अ0सं0 128/15 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 3-मु0अ0सं0 161/15 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 4-मु0अ0सं0 96/14 धारा 302, 120 बी भा.द.वि. थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 5-मु0अ0सं0 128/15 धारा18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 6-मु0अ0सं0 242/18 धारा 147,148,149,386,307,504,506,34 भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 7-मु0अ0सं0 150/18 धारा 307 भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 8-निवारक कार्यवाही 017/19 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 9-मु0अ0सं0 38/22 धारा 394/506/411 भादवि0 थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 10-मु0अ0सं0 116/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण:**

- 1.01 कान का कुण्डल पीली धातु (संबंधित मु0अ0सं0 38/2022 धारा 394,506,411 भादवि0 थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर)
- 2.एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर



### **3-थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 05.07.2022 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 392/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 01 वांछित अभियुक्त अन्नतपाल पुत्र स्व0 मटरूवा निवासी गाँव नगला खुर्द, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़, उ0प्र0 को थाना क्षेत्र के सेक्टर-37 चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था।

#### **अभियुक्त का विवरण:**

अन्नतपाल पुत्र स्व0 मटरूवा निवासी गाँव नगला खुर्द, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़, उ0प्र0।

#### **आपराधिक इतिहास का विवरण:**

1-मु0अ0सं0 392/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सेक्टर-39, नोएडा।

2-मु0अ0सं0 1269/2019 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।



**#थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को थाने का भ्रमण कराते हुए पुलिस कार्यप्रणाली के बारे में समझाया गया एवं गुड टच/बैड टच के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।**

दिनांक 05/07/2022 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय तुगलपुर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय तुगलपुर के बालक-बालिकाओं को थाना नॉलेजपार्क का भ्रमण कराया गया। परिसर का भ्रमण करने के पश्चात महिला उपनिरीक्षक अंजना यादव द्वारा बच्चों को थाने की कार्यप्रणाली के बारे में दिखाकर समझाया गया। सभी बच्चों को गुड टच/बैड टच के बारे में भी बताया गया तथा किसी के द्वारा गलत हरकत करने पर अभिभावक/पुलिस की मदद लेने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। इसके उपरांत बच्चों को फ्रूट जूस का वितरण किया गया।



**#ऊ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर में चलाये जा रहे वन महोत्सव कार्यक्रम के अनुपालन में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा सभी पुलिस अधिकारीगण के साथ पुलिस लाइन में किया गया पौधरोपण।**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके क्रम में आज के दिन प्रदेश में 25 करोड़ पौधों को रोपित किया जाना है।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार कमिश्नर के सभी पुलिस कार्यालयों, थानों, फायर स्टेशन व चौकियों पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारीगण द्वारा किया जा रहा पौधरोपण।

ऊ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर में चलाये जा रहे वन महोत्सव कार्यक्रम के अनुपालन में दिनांक 05/07/2022 को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा अन्य सभी पुलिस अधिकारीगण के साथ पुलिस लाइन में पौधरोपण किया गया। पूरे प्रदेश भर में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधों का रोपण किया जायेगा। इसी क्रम में कमिश्नर गौतमबुद्धनगर में पुलिस द्वारा पौधारोपण के उद्देश्य से आज पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार, अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह व अन्य अधिकारीगण के साथ पुलिस लाइन में पौधों का रोपण किया गया। उनके साथ पुलिस लाइन परिसर में रह रहे बच्चों द्वारा भी उक्त कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर

हिस्सा लिया गया एवं बच्चो द्वारा भी अधिकारीगण के साथ पौधरोपण किया गया। पौधरोपण करने के पश्चात पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी लोगों से अपील करते हुए संदेश दिया गया कि सभी लोग नियमित रूप से अधिक से अधिक संख्या में अपने आसपास पौधरोपण करे जिससे वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार सभी पुलिस कार्यालयों, थानों, फायर स्टेशन व चौकियों पर भी सम्बन्धित पुलिस अधिकारीगण द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए परिसर व आस-पास की जगहों पर पौधरोपण किया गया। उनके द्वारा आसपास के लोगों को भी पौधरोपण से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया व उनको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूक किया गया।

